

पाठ - 3 (किरमिच की गेंद)

कठिन शब्द

1. छुट्टियाँ
2. बरामदे
3. मशीन
4. भिंडियाँ
5. चमचमाती
6. तिमंजिली
7. मुंडेर
8. खिड़कियाँ
9. दोहराना
10. क्रिकेट
11. ईमानदारी
12. सिद्ध
13. हथियाने
14. आजमाया
15. स्कूटर

शब्द - अर्थ

1. वस्तु - चीज
2. सरकाना - हटाना
3. तपना - जलना
4. निगाह - नजर
5. सुविधा - आसानी
6. अधिकार - हक़
7. निशानी - पहचान
8. गुट - समूह
9. वास्तव - सच में
10. आरंभ - शुरुआत

वचन – बदलो

1. छुट्टी – छुट्टियाँ
2. कहानी – कहानियाँ
3. क्यारी – क्यारियाँ
4. भिंडी – भिंडियाँ
5. गेंद – गेंदें
6. बल्ला – बल्ले
7. टोकरी – टोकरियाँ
8. सड़क – सड़कों
9. स्कूटर – स्कूटरों

विलोम – शब्द

1. दोपहर x सुबह / शाम
2. ज़ोर x धीरे
3. फैला x सीमित
4. नया x पुराना
5. ईमानदारी x बेईमानी
6. कठिन x आसान
7. मित्र x शत्रु
8. खोना x पाना
9. खरीदना x बेचना
10. चतुर x भोला
11. मजबूत x कमजोर
12. आरंभ x अंत

प्रश्न – उत्तर

प्रश्न – 1 दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कौन – कौन सी बातें बताई ?

उत्तर – दीपक ने कहा – यह गेंद मेरी है , यह पाँच महीने पहले खोई थी , यह लाल रंग की है , और मैं यह बात अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ !

प्रश्न – 2 दिनेश घर में क्या कर रहा था ?

उत्तर – दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था !

प्रश्न -3 दिनेश की माँ क्या कर रही थी ?

उत्तर – दिनेश की माँ मशीन चला रही थी !

प्रश्न – 4 दिनेश के घर में किन – किन चीजों के पौधे लगे हुए थे ?

उत्तर – दिनेश के घर में भिंडियों के पौधे , केले के पेड़ और सीताफल की बेल लहरा रही थी !

प्रश्न – 5 बच्चों ने क्लब क्यों बनाया हुआ था , और उसके लिए पैसा कहाँ से आता था ?

उत्तर – बच्चों ने क्लब खेलने के लिए बनाया था , और उसमें पैसा चंदा इकठ्ठा करने से आता था !

प्रश्न – 6 किस –किस ने कहा – गेंद मेरी है ?

उत्तर – अनिल,सुनील ,सुधीर और दीपक ने कहा कि गेंद मेरी है !

प्रश्न – 7 गेंद को लेकर झगड़ा कैसे समाप्त हुआ ?

उत्तर – गेंद को लेकर झगड़ा तब समाप्त हुआ जब गेंद स्कूटर की टोकरी में चली गयी !

कौन कहाँ रहता है _

- | | |
|----------|------------|
| 1. दिनेश | गड्डे (2) |
| 2. घूँस | मकान (1) |
| 3. गाय | अस्तबल (4) |
| 4. घोडा | गौशाला (3) |
| 5. शेर | पेड़ (6) |
| 6. बंदर | माँद(5) |